



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1944 (श०)
(सं० पटना 59) पटना शुक्रवार 13 जनवरी 2023

विधि विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी 2023

सं० एल०जी०-01-17/2022-378/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 8 जनवरी 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) अधिनियम, 2022

[बिहार अधिनियम 03, 2023]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम**।— यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 34,46,983 रुपये की निकासी।

बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रु0 34,46,983/- (चौतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. **विनियोग**।— इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1989-90		अधिकाई व्यय की रकम (रुपये में)					
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व / पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27	परिवार कल्याण	स्वास्थ्य	राजस्व	3446983	-	3446983
कुल					3446983	-	3446983

रुद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 59-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>